

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सिकहरना, ढाका।

पत्रांक - 1325/440/ सिकहरना, ढाका, दिनांक-22/09/2022

प्रेषक :-

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, सिकहरना, ढाका।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
ग्रामीण कार्य विभाग,
विश्वसरैया भवन, पाच्चा तल्ला, बिहार, पटना।

विषय :-


M/R (3054) New Maintenance Police 2018 (Maintenance) योजना हेतु
आवंटन अधियाचना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि इस प्रमंडलान्तर्गत M/R (3054)
New Maintenance Police 2018 (Maintenance) योजना के अधीन कराये गये कार्य के विरुद्ध
भुगतान हेतु आवंटन अधियाचना विहित-प्रपत्र में संलग्न कर समर्पित किया जाता है।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन



कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,
सिकहरना, ढाका।

Rural Works Department

Requisition Formate for Scheme Head-MR(3054) under Bihar Rural New Maintenance Policy-2018 (Initial Rectification and Surface Renewal)

Name of the Division :- Rural Works Department, Works Div. Dhaka

Sl.	Package No.	Name of Road	Project id as per MIS	A/A Letter No. & Date	Administrative Approval		Agreement Amount (In Lakh)		Agreement No. & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of IRI (In mm/km)	Thickness of Bitumen layer (in mm)	Value of Bitumen Content in Percentage	Previous Total Alloted Amount (In Lakh)	Up-to date expenditure as per MIS	Requisition against work done (In Lakh)	Remarks
					Length (in km)	Amount (In Lakh)	Initial Rectification with surface Renewal (In Lakh)	5 Yar Routine Maintenance (In Lakh)										
1	RM/EA/SIK/20/0003	Dhaka-Phulwariya Road - Bahlolpur	31708602084	5975/30.10.2019	2.157	55.32319	55.11849	21.42966	02 MBD-01.09.2021	31.05.2022	30.04.2022	3228	25	5	0.00	0.00	55.10000	
Total :-															0.00	0.00	55.10000	

प्रमाणित किया जाता है कि पथ में कराये गये कार्य के सभी अवयववार 100 प्रतिशत कार्य का दर्ज मापी का सत्यापन संबंधित कनीय अभियंता 50 प्रतिशत मापी का सत्यापन संबंधित सहायक अभियंता एवं 10 प्रतिशत मापी का सत्यापन अधोहस्ताक्षरी यथा कार्यपालक अभियंता द्वारा किया जा चुका है। कराया गया कार्य मानक एवं विशिष्टियों के अनुरूप है।

Subendra KR
28.09.22
Junior Engineer
RWD (W) Div. Dhaka

Assistant Engineer
RWD (W) Div. Dhaka

28.09.22
Divisional Accounts Officer
Rural Works Div, Dhaka

28.09.22
Executive Engineer
RWD (W) Div. Dhaka



FORM GFR 19-A

(See Government of India's Decision (1) below Rule-150)
Form of Utilization Certificate Upto the Month of upto.....

MR-3054 (New Maintenance Policy)**PIU :- EE RWD (W) DIVISION DHAKA**

Sl.	Name of the Scheme	Sanction No. & Date with Amount (Rs. In Lakh)	Amount Received (Rs. In Lakh)	Particulars
1	Construction of Rural Roads Under MR-3054 (New maintenance Policy)			Certified that out of Rs. Lacs received the year 2022-23 in favor of Executive Engineer, R.W.D. (W), Division Dhaka a sum of Rs lacks has been utilized for the purpose of MR-3054 (New Maintenance Policy) Schemes as given in the margin for which it was sanctioned of Rs..... Remaining unutilized at the end of the period under.
Total :-				

Certified that I have satisfied my self that the condition on which the grants-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

20/9.22
Divisional Account Officer

R.W.D. (W) Div., Dhaka

Kind of Checks Exercised :-

- Works have been supervised by Executive Engineer/Superintending Engineer.
- Periodical inspection has been conduct by Executive Engineer/Superintending Engineer.
- Construction material have been tested.
- Measurement have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant.
- All other codal Formalities have been observed.

Physical Progress achieved :-

- Construction of Road Works.
- Construction of CD Works.

29.9.22
Executive Engineer
R.W.D.(W) Div., Dhaka

Name of Customer : Ajay Kumar
 Name of Work/ Road : Dhaka Phulwariya Road to Bah
 Lab Job number :
 Date : 28-09-2022
 Section No. : 57


Test Date : 28-09-2022 Road Name : Phulwariya Road to Bahlolpur
 Machine No : 437 Road Type : (R) RURAL ROAD
 Start S No : Side :
 Start E No : Interval
 Weather : Normal UIV Range : 1328 To 5000 1000 mm/km
 Start Location : Dist Range : 0 To 2.2 01 * 1000 m
 End Location : Equation : $Y = 0 * X^2 + 0.954 * X + 1345$

Print

Generate Report and Graph

Redraw Graph

Map View



Subendrakr
 28.09.22
 J.E

Nay
 28/9/22
 AE

28.9.22
 EG

Name of Road :- Dhaka Phulwariya Road to Bahlolpur
Contractor Name:- Ajay Kumar

Date	Time	Section No.	Length in km	Bumps in mm	Speed Rate	OR mm/km	IRI mm/km ROAD	CATEGORY
28/9/22	10: 6: 37	57	0.1	310	0	3100	3091 G	
28/9/22	10: 7: 11	57	0.1	310	10.1	3100	3091 G	
28/9/22	10: 7: 47	57	0.1	390	20.2	3900	3855 G	
28/9/22	10: 8: 22	57	0.1	310	10.1	3100	3091 G	
28/9/22	10: 8: 22	57	0.1	400	20.2	4000	3950 G	
28/9/22	10: 8: 22	57	0.1	380	30.3	3800	3759 G	
28/9/22	10: 9: 0	57	0.1	230	30.3	2300	2328 G	
28/9/22	10: 9: 0	57	0.1	400	20.2	4000	3950 G	
28/9/22	10: 10: 8	57	0.1	300	30.3	3000	2996 G	
28/9/22	10: 11: 0	57	0.1	270	30.3	2700	2710 G	
28/9/22	10: 14: 0	57	0.1	400	20.2	4000	3950 G	
28/9/22	10: 14: 50	57	0.1	300	30.3	3000	2996 G	
28/9/22	10: 15: 25	57	0.1	390	20.2	3900	3855 G	
28/9/22	10: 17: 11	57	0.1	250	30.3	2500	2519 G	
28/9/22	10: 19: 0	57	0.1	270	40.4	2700	2710 G	
28/9/22	10: 20: 0	57	0.1	230	40.4	2300	2328 G	
28/9/22	10: 20: 8	57	0.1	340	40.4	3400	3378 G	
28/9/22	10: 20: 43	57	0.1	300	30.3	3000	2996 G	
28/9/22	10: 21: 0	57	0.1	370	20.2	3700	3664 G	
28/9/22	10: 21: 0	57	0.1	340	20.2	3400	3378 G	
28/9/22	10: 21: 18	57	0.1	320	30.3	3200	3187 G	

Total:- 67782
Avg IRI :- 3228

Subendrakr
28.09.22
J.E

NOV
28/9/22
AE

Scheme:- MR New Maintenance Policy
Division:- Dhaka

Latitude	Longitude	Event
26.691992	85.201935	Normal
26.692382	85.202928	Normal
26.69251	85.203905	Normal
26.692665	85.20473	Normal
26.69208	85.205403	Normal
26.691655	85.206363	Normal
26.691288	85.207255	Normal
26.690565	85.207878	Normal
26.689742	85.208282	Normal
26.689407	85.209157	Normal
26.688958	85.20973	Normal
26.688697	85.208787	Normal
26.68802	85.208163	Normal
26.687468	85.207895	Normal
26.686782	85.207272	Normal
26.685923	85.207037	Normal
26.685118	85.206582	Normal
26.68447	85.205858	Normal
26.683707	85.205487	Normal
26.682808	85.205437	Normal
26.681822	85.205522	Normal

$$Y = 0 * X^2 + 0.954 * X + 134.5$$

$$X = 11695$$

$$Y = 11291$$

(R) RURAL ROAD

Good	Average	Poor
<4000	4001-5000	>5001

28.9.22
EE

